

Basic English Spoken Course For Daily & General Life Conversation BY Tanvir Sir

PART 4

Basic English Spoken Course For Daily & General Life Conversation



10 Live Classes



**Class
PDFs**



**QUIZZES and
Practice**




**Doubt Clearance
What'sUp Group**



By Tanvir Sir

Class Topic:

Day 10– Complete revision & practice session to get fluency in spoken English



Introduction

This Spoken English course improves your speaking skills and it also, enables you to converse effectively while solving quizzes.

Points to cover:

1. Learn daily used actions & its forms.
2. Sentence formation with different types of grammar.
3. Common dialogues for daily use.
4. Conversation using previous rules in spoken English.
5. Quiz based on the lesson.

Learning objective: To make students understand previous rules & way of getting fluency in Spoken English.

छात्रों को पिछले नियमों और स्पोकन इंग्लिश में प्रवाह प्राप्त करने के तरीके को समझने के लिए।

1. Overall revision & practice session to get fluency in spoken English.
2. To make you learn frequently used dialogues with Hindi meaning.
3. To make students aware tricks to master the language.
4. To help you learn other basic dialogues for daily conversation.

Grammar you will learn:

A brief revision & practice session along with frequently used new vocabulary.

1. We will be having practice session & quizzes to master previous grammar etc.
2. We will also discuss most common new action verbs for daily conversations and its form in spoken English.
3. We will also learn grammar rules using short forms appropriately using rules.
4. We will also discuss Do's & Don'ts to be followed while framing sentences in present, past & future.

List of commonly used action verbs

List of daily Actions	Hindi meaning	I	II	III
Have a shower	स्नान करना	have	Had	Had
Make a plan	योजना बनाना	Make	Made	Made
Look for mobile	मोबाइल ढूँढना	Look	Looked	Looked
Bargain	मोलभाव करना	bargain	bargained	bargained
Operate the computer	कंप्यूटर चलाना	operate	operated	Operated
Withdraw support	समर्थन वापस लेना	withdraw	withdrew	withdrawn
Complain	शिकायत करना	complain	complained	complained
Sing lullaby	लोरी गाना	Sing	Sang	Sung
Hit the gym	व्यायामशाला जाना	Hit	Hit	Hit
Stand for justice	न्याय के लिए खड़ा होना	Stand	Stood	Stood

Habits-

1	Are you in the habit of driving car?	क्या आपको कार चलाने की आदत है?
2	I am in the habit of driving car.	मुझे कार चलाने की आदत है।
3	I am not in the habit of driving car.	मुझे कार चलाने की आदत नहीं है।
4	Is he in the habit of smoking cigarette?	क्या उसे सिगरेट पीने की आदत है?
5	He is in the habit of smoking cigarette.	उसे सिगरेट पीने की आदत है।
6	He is in the habit of smoking cigarette.	उसे सिगरेट पीने की आदत है।
7	Were you in the habit of fighting?	क्या आपको लड़ने की आदत थी?
8	I was in the habit of fighting.	मुझे लड़ने की आदत थी।
9	I was not in the habit of fighting.	मुझे लड़ने की आदत नहीं थी।
10	Will you be in the habit of reading book?	क्या आपको किताब पढ़ने की आदत होगी?
11	I will be in the habit of reading book.	मुझे किताब पढ़ने की आदत हो जाएगी।
12	I will not be in the habit of reading book.	मुझे किताब पढ़ने की आदत नहीं होगी।

About course

Name: Basic English Spoken Course PART 4 – DAY 10 - **Spoken English Class**

About the Instructor

Tanvir Sir (MA in English) has been Imparting training for more than 10 years. He has trained more than 6 thousand students. He is an assistant professor of English at Poornima University, Jaipur.

Students have known him as a Spoken English trainer. He has made learning as easy as ABC.

Online Link: On Namaste English Android App at <https://namasteenglish.page.link/hp>

After installing app, click on website link: <https://namaste-english.com/video-courses/basic-english-spoken-course-part-4-for-daily-&-general-life-conversation-by-tanvir-sir-courses-8b738d6acb5f4879a6c60ea03a5e1b6c.html>

Price: Course is available only to UNLIMITED Account users of Namaste English app. To get UNLIMITED Account, click on <https://namasteenglish.page.link/unlimited-account>